



गांव भैंसमई में पकड़ी अवैध शराब फैक्ट्री, युवक दबोचा

Publish Date: Fri, 01 May 2020 06:00 AM (IST)



संसू हाथरस सिकंदराराऊ में लॉकडाउन के चलते शराब की बिक्री बंद है जिसके चलते अवैध तरीके से शराब बनाकर बेचने वाले सक्रिय हो गए हैं।

संसू, हाथरस : सिकंदराराऊ में लॉकडाउन के चलते शराब की बिक्री बंद है, जिसके चलते अवैध तरीके से शराब बनाकर बेचने वाले सक्रिय हो गए हैं। कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को क्षेत्र के गांव भैंसमई में दबिश देकर कच्ची शराब की अवैध फैक्ट्री पकड़ ली। मौके से शराब बना रहे एक युवक को दबोच लिया। दूसरा भाग गया। पुलिस ने मौके से शराब बनाने के उपकरण एवं लहन, यूरिया आदि बरामद किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

कोतवाल प्रवेश राणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद भैंसमई में स्थित पोखर के निकट दबिश दी गई। मौके से पवन पुत्र भूरे सिंह निवासी गांव भैंसमई को गिरफ्तार किया गया। विनय उर्फ बाबूजी पुत्र रामपाल उर्फ सिपाही निवासी गांव भैंसमई भाग गया। आरोपित के कब्जे से टीम ने तीन लीटर कच्ची शराब, 150 लीटर लहन एवं 600 ग्राम यूरिया समेत शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। टीम में एसआइ रमाकांत शर्मा, आरक्षी विकास कुमार, बिट्टू यादव, रामनरेश शामिल थे। डीएम के निर्देश पर छापे

जासं, हाथरस : अलीगढ़ में नकली शराब की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने जिले में निगरानी के निर्देश दिए थे। इसके बाद चार टीमों गठित की गईं। हर टीम में उपजिलाधिकारी, सीओ और आबकारी इंस्पेक्टर शामिल हैं। गुरुवार को सहपऊ पुलिस और आबकारी टीम ने बाग बधिक गांव में ऐसे लोगों की बैठक बुलाई जो अब अवैध कारोबार से दूर हैं। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने सभी को हिदायत दी कि धंधे से दूर रहें और जो भी इसमें कूदे उसकी सूचना दें।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/hathras-illegal-liquor-factory-caught-in-village-bhainsmai-youth-caught-20235099.html>